

लाइफ टके का जवाब इंश्योरेंस



अमित सूरी

सीएफपी, एयूएम

फाइनेंशियल प्लानर्स

हमारे विशेषज्ञ म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार में निवेश, टैक्स जैसे मुद्दों पर आपकी राह आसान करेंगे। आप सवाल ethindiquery@gmail.com पर भेज सकते हैं

प्र मैंने तीन साल पहले एक कार खरीदी थी। पिछले छह महीने से मैं विदेश में था, इसलिए कार इंश्योरेंस को रिन्यू नहीं करवा पाया। इस दौरान मैं जहां रहता हूं, उसी बिल्डिंग में कार खड़ी थी। यहां लौटने के बाद मैंने देखा कि कार में कई जगह डेंट लगी हुई है और बोनट क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या इस हालत में बीमा कंपनी कार इंश्योरेंस रिन्यू करेगी? कार की इस क्षति के लिए मुझे कितना नुकसान उठाना पड़ेगा?

अंशुल कुमार

उ अगर कार उस अवधि में क्षतिग्रस्त हुई, जब उसका बीमा नहीं था तो इसे ठीक करवाने के लिए आपको अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। इसके बाद ही आपको बीमा के लिए आवेदन करना चाहिए। कार रिपेयर करने के बाद बीमा कंपनी का सर्वेयर कार को देखकर बीमे के कवर के बारे में फैसला करेगा। सर्वेयर की प्री-इंस्पेक्शन रिपोर्ट आने के बाद ही बीमा कंपनी कार का इंश्योरेंस करेगी।

प्र कम आय वर्ग के लोगों के लिए कौन-कौन सी हेल्थ बीमा पॉलिसी उपलब्ध हैं?

रमेश

उ गरीब लोगों के लिए जन आरोग्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की गई है। इसे गरीबों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें प्रीमियम और सर्विस टैक्स लागू नहीं होते। इसमें इंडिविजुअल मेडिकलेम पॉलिसी के हिसाब से सुविधाएं मिलती हैं जिसमें क्यूमुलेटिव बोनस, मेडिकल चेक अप जैसी सुविधाएं नहीं दी जाती। इसमें प्रति व्यक्ति सम एश्योर्ड की सीमा 5,000 रु तक है। पॉलिसी अकेले व्यक्ति और परिवार के लिए उपलब्ध है। पॉलिसी को पांच साल से लेकर 70 साल तक के लोग खरीद सकते हैं। इसमें तीन महीने से लेकर पांच साल तक के बच्चे का कवर भी लिया जा सकता है।

प्र मेरा एक साल का बेटा है जो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। मैं अपनी मृत्यु के बाद उसकी सुरक्षा के लिए कौन सी पॉलिसी ले सकता हूं?

कुमार

उ एलआईसी ने विकलांग आश्रितों के लिए जीवन आधार नाम की पॉलिसी पेश की है। इस प्लान के तहत कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी के

लिए लंपसम पेमेंट और विकलांग आश्रित के लिए एन्युटी की सुविधा ले सकता है। इस प्लान के तहत पेमेंट नॉमिनी को दिया जाता है। नॉमिनी में विकलांग आश्रित, परिवार का कोई व्यक्ति या कोई ट्रस्ट हो सकता है जिससे आश्रित को मदद मिल सके। इस प्लान के तहत एलआईसी रिटर्न की गारंटी भी देती है।

प्र पांच साल पहले मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लाइफटाइम पेंशन यूलिप प्लान लिया था। इसमें लाइफ कवर नहीं है और सालाना प्रीमियम 15,000 रुपए है। अब मुझे लगता है कि पेंशन की रकम मेरे लिए पर्याप्त नहीं रहेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि पेंशन की रकम बढ़ाने के लिए मुझे कोई नया पेंशन प्लान लेना चाहिए या मैं पुराने प्लान में ही टॉपअप सुविधा हासिल कर सकता हूं?

सीतारमन के

उ कम खर्च वाला विकल्प तो यह है कि आप पुराने प्लान में ही समय-समय पर टॉपअप के जरिए अधिक पैसा डालते रहें। प्लान आपने 5 साल पहले लिया था। ऐसे में मुझे लगता है कि अब आपकी बीमा संबंधी जरूरतें भी बढ़ गई होंगी। ऐसे में मैं टर्म इंश्योरेंस लेने की सलाह दूंगा।

प्र किसी गाड़ी की बिक्री और उसके ट्रांसफर के बाद नो क्लेम बोनस का क्या होगा?

अर्जुन वर्मा

उ किसी गाड़ी की बिक्री और उसके ट्रांसफर के बाद नो क्लेम बोनस नई गाड़ी को ट्रांसफर हो जाता है। इसे तीन साल के लिए होल्ड भी किया जा सकता है और उसी नाम से अगर नई गाड़ी खरीदी जाती है तो नो क्लेम बोनस का लाभ उस व्यक्ति को दोबारा मिलने लगता है। विक्रेता को बीमा कंपनी से नो क्लेम बोनस संबंधी दस्तावेज ले लेना चाहिए और इसे नई कार खरीदने पर बीमा कंपनी के सामने पेश करना चाहिए। पुरानी कार खरीदने वाले व्यक्ति को नो क्लेम बोनस का कोई लाभ नहीं मिल सकता।

